

संस्कृत विभाग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के द्वारा आयोजित

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025

(एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग)

के अवसर पर ऑनलाइन विशिष्ट व्याख्यान

योग एवं मानसिक स्वास्थ्य

The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, there are two large video windows. The top one shows Prof. Md. Mahtab Alam Rizvi (NMCPGR) and the bottom one shows Dr. Dhananjay Mani Tripathi (Assistant Professor, D/o Sanskrit). To the right of these is a grid of smaller video windows showing other participants, including Dr. Rishabh, Imran Choudhary, Dr. Dhanamveer Yo..., Jahan Ara, Prof. Jay Prakash, Anurag Pathak, maroonherwan..., Balmukund Balmu..., Sudhanshu Shekha..., Dr. Sheela Yadav, and a group of 24 others. On the far right, there is a 'People' panel with a search bar and a list of contributors. The list includes Seminar D/o Sansk... (You) as the meeting host, Akanksha Dwivedi, Anurag Pathak, Arjun Maan, Balmukund Balmukund, Biswajit Mahato, Dr. Sheela Yadav, Dr. Dhananjay Mani Tripathi (Meeting host), and Dr. Maitreyi Kumari. At the bottom, there is a status bar showing the time as 5:15 PM and the meeting title as 'संस्कृत विभाग, जा.मि.इ. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2...'. Below the status bar are various Zoom controls like mute, video, chat, and a red 'End' button.



